

=====

AVYAKT MURLI

05 / 12 / 78

=====

05-12-78 ओम शान्ति अव्यक्त बापदादा मधुबन

मरजीवा जन्म का निजी संस्कार- पहली स्मृति और पहला बोल

सर्व आत्माओं पर तरस खाने वाले, विश्व की सर्वश्रेष्ठ आत्माओं प्रति बाप-  
दादा बोले: -

आज बाप-दादा विश्व की सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को देख हर्षित हो रहे हैं। सर्व  
आत्माओं में से बहुत थोड़ी-सी आत्माओं का ऐसा श्रेष्ठ भाग्य है - जैसे  
बच्चे भाग्य विधाता बाप को देख हर्षित होते हैं वैसे बाप भी भाग्यवान  
बच्चों को पाकर बच्चों से भी ज्यादा खुश होते हैं। क्योंकि इतने समय से  
और इतने सब बच्चे बिछड़े हुए फिर से मिल जाएं तो क्यों नहीं खुशी  
होगी। हर बच्चे की विशेषता या हर सितारे की चमक, हर रूह की रंगत,  
रूहानियत् की ईश्वरीय झलक जितना बाप जानते हैं उतना बच्चे स्वयं भी  
कब भूल जाते हैं। सर्व विघ्नों से, सर्व प्रकार की परिस्थितियों से या  
तमोगुणी प्रकृति की आपदाओं से सैकण्ड में विजयी बनने के लिए सिर्फ  
एक बात निश्चय और नशे में रहे -- वह कौन सी? जो बार-बार जानते भी  
हो, संकल्प तक स्मृति में रहते हो लेकिन संस्कार रूप में नहीं रहते हो -  
सोचते भी हो, समझते भी हो, सुनते भी हो, फिर भी कभी-कभी भूल जाते

हो। वह क्या? बहुत पुरानी बात है - वाह रे मैं - यह सुनते खुश भी होते हो फिर भी भूल जाते हो। इस मरजीवा जीवन के जन्म के संस्कार - वाह रे मैं - ही हैं। तो अपने जन्म के निजी संस्कार जन्म की पहली स्मृति, जन्म का पहला बोल - मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ इसको भी भूल जाते हैं। भूलने का खेल अच्छा लगता है। आधा कल्प भूलने के खेल में खेला - अब भी यही खेल अच्छा लगता है क्या ? ब्राह्मण अर्थात् स्मृति स्वरूप। ब्राह्मण अर्थात् समर्थी स्वरूप। स्वरूप को भूलना, इसको क्या कहेंगे? बाप-दादा को बच्चों के इस खेल को देख तरस आता है - हँसी भी आती है। इतनी महान आत्माएँ और करती क्या हैं ? और भी एक बहुत वण्डरफुल खेल करते हो, कौनसा? जानते भी हो अच्छी तरह से - आप लोग ही बताओ कि क्या करते हो - कोई नाज़-नखरे करते, कोई आंख मिचौनी करते। कभी वाह कहते हो कभी हाय करते हो - अच्छा यह तो सब जानते हैं कि करते हैं - इससे भी वण्डरफुल और खेल है - जब बाप के बच्चे बने, मरजीवा बने तो पहली प्रतिज्ञा कौनसी की ? यह भी अच्छी तरह से जानते हो - वायदा क्या किया, उसको भी जानते हो। बाप ने वायदा कराया और आपने स्वीकार भी किया। स्वीकार करने के बाद फिर क्या करते हो। बाप ने कहा शूद्रपन के विकारी संस्कार छोड़ो - आत्मा के विकारी संस्कार रूपी चोला परिवर्तन किया और ईश्वरीय संस्कार का दिव्य चोला पहना - शूद्रपन की निशानियाँ अशुद्ध वृत्ति और दृष्टि परिवर्तन कर पवित्र दृष्टि और वृत्ति विशेष निशानियाँ धारण की - सर्वश्रेष्ठ ते श्रेष्ठ सम्बन्ध और

सम्पत्ति के अधिकारी बने - यह भी अच्छी तरह से याद है, लेकिन फिर क्या करते - जो श्रेष्ठ आत्मायें होती हैं वह संकल्प से भी छोड़ी हुई अर्थात् त्याग की हुई बात फिर से धारण नहीं करती हैं। जैसे धरनी पर गिरी हुई वा फेंकी हुई चीज़ रायल बच्चे कभी नहीं उठावेंगे। आप सबने संकल्प धारण किया और यह विकार बुद्धि से फेंके। बेकार समझ, बिगड़ी हुई वस्तु समझ प्रतिज्ञा की और त्याग किया, वचन लिया कि फिर से यह विष सेवन नहीं करेंगे - फिर क्या करते हो। फेंकी हुई चीज़, गन्दी चीज़, बेकार चीज़, जली सड़ी हुई वस्तु फिर से उठाकर यूज़ क्यों करते हो - समझा क्या खेल करते हो - अनजाने का खेल करते हो - खेल देख तरस भी पड़ता और हँसी भी आती। जानीजाननहार तो बने हो लेकिन बनना है करनहार। अब क्या करेंगे ? करनहार बनने का विशेष कार्यक्रम करके दिखाओ। संकल्प द्वारा त्याग की हुई बेकार वस्तुओं को संकल्प में भी स्वीकार नहीं करो। सोचो और स्वयं से पूछो - कौन हूँ और क्या कर रहा हूँ। वचन क्या किया और कर्म क्या कर रहे हैं? वायदा क्या किया ओर निभा क्या रहे हैं। अपने स्वमान, श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ जीवन के समर्थी स्वरूप बनो। कहना क्या और किया क्या? ऐसे वण्डरफुल खेल अब बन्द करो। श्रेष्ठ स्वरूप, श्रेष्ठ पार्टधारी बन श्रेष्ठता का खेल करो। ऐसी सम्पूर्ण आहुति का संकल्प करो तब परिवर्तन समारोह होगा। इस समारोह की डेट संगठित रूप में निश्चित करो। अच्छा।

ऐसे दृढ़ संकल्पधारी, संकल्प और स्वरूप में समान मूर्त्त, जाननहार और करनहार, हर कर्म द्वारा स्वयं की श्रेष्ठता और बाप की प्रत्यक्षता करने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप-दादा का यादप्यार और नमस्ते।

दीदी जी से

बातचीत बाप तो हर बच्चों के बुलाने पर आ जाते हैं। बच्चे जो आज्ञा करें वह मानते हैं लेकिन इस बार कुछ साथ में ले भी जाना है। बच्चे तो साथ हैं ही। लेकिन साथ ले क्या जायेंगे? हर बच्चे के दृढ़ संकल्प की अन्तिम आहुति ले जायेंगे। यज्ञ का प्रसाद अन्तिम आहुति होती है। यज्ञ की रचना साकार सृष्टि में साकार द्वारा हुई - ब्रह्मा ने अपना पार्ट बजाकर ब्राह्मणों को यज्ञ की जिम्मेवारी तो दी, यज्ञ की विशेष प्रसादी बाप-दादा लेंगे। कोई भी मिलने आते हैं तो उनको प्रसाद देते हो ना। बाप-दादा भी प्रसादी ले जायेंगे। यह प्रसाद देना अर्थात् विश्व परिवर्तन होना है। इस शिवरात्रि पर सेवा के साधन, जिससे अन्य अनेक आत्माओं को परिचय मिले वह तो करेंगे ही लेकिन साथ-साथ ऐसा संकल्प करो कि परिचय के साथ बाप की झलक देखने या अनुभव करने का प्रसाद भी लेवें। जैसे कोई फंक्शन आदि होता है तो जहाँ प्रसाद मिलता है वहाँ सभी को आकर्षण होती है। न चाहते हुए भी स्वतः ही लोग आ जाते हैं प्रसादी की आकर्षण से। तो ऐसा लक्ष्य रखो - वायुमण्डल बनाओ - अपनी समर्थी के आधार पर असमर्थ आत्माओं को विशेष रहम के संकल्प की आकर्षण से प्राप्ति या अनुभूति का प्रसाद बाँटो। साथ-साथ अपने महावीरों का ऐसा विशेष

ग्रुप बनाओ जो दृढ़ संकल्प द्वारा जाननहार और करनहार का साक्षात स्वरूप बन करके दिखाएं -जैसे कहावत है धरत परिये धर्म न छोड़िये। ऐसी धारणा हो, कुछ भी सरकमस्टान्सेज आ जाएं, माया के महावीर रूप सामने आ जायें लेकिन धारणा न छूटे - जैसे शुरू में आपस में पुरुषार्थ के ग्रुप बनाये थे ना। डिवाइज्ड यूनियटी भी बनाई, अभी कौन सी पार्टी बनायेंगे?

इस शिवरात्रि पर पाण्डव और शक्तियाँ दोनों विशेष ग्रुप बनावें जो विघ्न-विनाशक ग्रुप हो। यह प्रसाद बाप-दादा ले जायेंगे। यज्ञ की आहुति की खुशबू दूर तक फैलती है - तो बाप-दादा भी साकार वतन से सुक्ष्मवतन तक यज्ञ की इस विशेष खुशबू की खुशखबरी ले जायें - ऐसा प्रसाद तैयार करो - साथ में कुछ ले ही जायेंगे। यही आहुति जाने का गेट भी खोलेगी। अभी इतनी संख्या वृद्धि को पा रही है तो जाने के गेट भी खुलने चाहिए। तो गेट खोलने वाले कौन हैं ? बाप अकेला कुछ नहीं करेगा। कब कुछ किया है क्या? अभी भी अकेले नहीं हैं (बच्चों की चिटचेट चल रही है कि बाबा आप अकेले चले गये) पहले तो बाप-दादा दो साथी हैं। अकेला तो हो नहीं सकता। बच्चे भी हैं - आप साथ नहीं रहते हो? वायदा क्या किया है ? साथ रहेंगे साथ चलेंगे, साथ खायेंगे, पीयेंगे -- यह वायदा है ना। अभी वायदा बदल गया है क्या? अभी भी वही वायदा है बदला नहीं है। चले गये - ऐसा नहीं है। साकार में तो और भी थोड़े समय का साकार साथ था और थोड़ों के लिए साकार का साथ था। अभी तो सभी के साथ हैं। साकार में

तो फिर भी कई प्रकार के बन्धन थे, अभी तो निर्बन्धन हैं। अभी तो और ही तीव्रगति है - बाप को बुलाया और हाज़रा हज़ूर।

मोह से भी ऊपर - बलिहार होना है - जब बलिहार हो गये तो मोह तो उसमें एक अंचली है। अभी साथ रहेंगे साथ चलेंगे। सिर्फ आज क्यों, सदा ही साथ चलेंगे। अच्छा तो अब प्रसादी तैयार करना। पाण्डव क्या करेंगे ? (बकरी ईद) कुछ भी करो लेकिन कुछ करके दिखाओ। देखेंगे पाण्डवों का गुप रेस करता है या शक्तियों का। बकरी ईद मनाओ या कोई भी ईद मनाओ। मैं मैं का त्याग करना इसको कहा जाता है ईद मनाना। अब देखेंगे क्या प्रसाद तैयार कर देते हैं। पाण्डव तैयार करते हैं या शक्तियाँ तैयार करती हैं या दोनों ही तैयार करते हैं - अच्छा।

यू.पी. जोन विशेष भाग्यशाली रहा - यू.पी. की विशेषता है “भावना वाली धरनी” है। भक्ति की भावना ज्यादा है। ऐसी भक्त धरनी को भक्ति का फल देने के निमित्त बने हुए हैं। सभी ज़ोन में से यादगार भी ज्यादा यू.पी. में हैं - तो यू.पी. की यादगार धरनी को फिर से विशेष याद दिलाओ। यू.पी. का विस्तार बहुत है। विस्तार से अपने ज्ञान का बीज डाल बाप की कल्प पहले वाली फुलवाड़ी और अधिक तैयार करो। वैसे भी यू.पी. की धरनी फलीभूत धरनी है इसलिए और भी ज्यादा फुलवाड़ी बढ़ा सकते हो - हर स्थान से ज्ञान गंगा बहती जाए। नदी का महत्त्व भी यू.पी. में है - नहान का महत्त्व भी यू.पी. में है। जैसे स्थूल नहान का महत्त्व है वैसे चारों ओर ज्ञान-नहान का महत्त्व बढ़ाओ। यू.पी. का महत्त्व है - महान है

ना। नियम- पूर्वक ज्ञान के तीर्थस्थान की आदि भी यू.पी. से हुई है। नियम-पूर्वक निमन्त्रण अर्थ कानपुर और लखनऊ की आत्मार्ये निमित्त बनी हुई थीं। देहली में सिर्फ माताओं का निमन्त्रण था - नियम-पूर्वक निमंत्रण कानपुर, लखनऊ का था। देहली की महिमा अपनी, यू.पी. की महिमा अपनी है। महानता तो बहुत है, अब जितनी महानता गाई गई है उसी प्रमाण महान कार्य करके दिखाओ। ऐसा विशेष कार्य करो जो अभी तक कोई ज़ोन ने नहीं किया हो - हरेक ज़ोन को अभी कोई नई इनवैन्शन निकालनी चाहिए। मेले भी हुए, सम्मेलन भी हुए - अभी कोई नई रूपरेखा बनाओ जिसको देख-सुनकर समझें कि ऐसा कभी न सुना और न देखा।

आगरा ज़ोन से मुलाकात

सदा अपने भाग्य का सिमरण करते खुशी में रहते हो? वाह मेरा भाग्य! यह गीत सदा मन में बजता रहता है ? वाह बाप, वाह ड्रामा और वाह मेरा पार्ट - सदा इसी स्मृति में हर कार्य करते ऐसे अनुभव होता है -- जैसे कर्म करते हुए भी कर्म के बन्धन से मुक्त, सदा जीवन मुक्त है। सतयुग की जीवनमुक्ति का वर्सा तो प्राप्त होगा ही लेकिन अभी के जीवनबन्ध से जीवनमुक्त स्थिति का अनुभव सतयुग से भी ज्यादा है। तो अभी भी अपने ज्ञान और योग की शक्ति से जीवनमुक्त अवस्था का अनुभव करते हैं कि अभी भी बन्धन हैं? बन्धन सब समाप्त हो गये और जीवनमुक्त हो गए। कुछ भी हो जाये लेकिन जीवन मुक्त होने के कारण ऐसे अनुभव

होता है जैसे एक खेल कर रहे हैं, परीक्षा नहीं लेकिन खेल है। तन का रोग हो जाए - माया के अनेक प्रकार के वार भी हों लेकिन खेल अनुभव हो। खेल में दुःख नहीं होता, खेल किया ही जाता है मनोरंजन के लिए, दुःख के लिए नहीं। तो खेल समझने से जीवन-मुक्त स्थिति का अनुभव करेंगे। जीवनमुक्त हो या जीवन बन्ध हो? शरीर का, सम्बन्ध का कोई भी बन्धन न हो। यह तो खेल-खेल में फर्ज अदाई निभा रहे हैं। फर्ज अदाई का भी खेल कर रहे हैं। निर्बन्धन आत्मा ही ऊँची स्थिति का अनुभव कर सकेगी। बन्धन वाला तो नीचे ही बंधा रहेगा, निर्बन्धन ऊपर उड़ेगा। सभी ने अपना पिंजरा तोड़ दिया है, बन्धन ही पिंजरा है। तो बन्धनों का पिंजरा तोड़ दिया। फर्ज अदाई भी निमित्तमात्र निभानी है, लगाव से नहीं। फिर कहेंगे निर्बन्धन। ट्रस्टी बनकर चलते हो तो निर्बन्धन हो। कोई भी मेरापन है तो पिंजरे में बन्द हो। अभी पिंजरे की मैना नहीं स्वर्ग की मैना हो गई। शुरू-शुरू का गीत है ना पिंजरे की मैना अभी तो स्वर्ग की परियाँ हो गईं, सभी स्वर्ग में उड़ने वाली हो। पिंजरे की मैना से फरिश्ते बन गईं। अभी कहाँ भी ज़रा भी बन्धन न हो। मन का भी बन्धन नहीं। क्या करूँ, कैसे करूँ, चाहता हूँ, होता नहीं यह भी मन का बन्धन है। चाहता हूँ कर नहीं पाता तो कमज़ोर हुआ ना। इस बन्धन से भी मुक्त उसको कहा जाता है निर्बन्धन। जब बाप के बच्चे बने तो बच्चा अर्थात् स्वतन्त्र। इसीलिए कहा जाता है स्टूडेंट लाइफ इज़ दी बैस्ट लाइफ। तो कौन हो आप - बच्चे हो या बूढ़े हो? बच्चा अर्थात् निर्बन्धन। अगर अपने को पास्ट जीवन वाले



समझेंगे तो बन्धन है, मरजीवा हो गये तो निर्बन्धन। चाहे कुमार हो चाहे वानप्रस्थी हो लेकिन सब बच्चे हैं। सिर्फ एक कार्य जो बाप ने दिया है “याद करो और सेवा में रहो”, इसी में सदा बिज़ी रहो।

स्थापना के कार्य में आदि से जो आत्मायें सहयोगी हैं, उन्हीं को विशेष सहयोग ड्रामा अनुसार किसी न किसी रूप से प्राप्त ज़रूर होता है। गारन्टी है। बाप-दादा यहाँ का यहाँ रिटर्न भी करते हैं और भविष्य के लिए भी जमा होता है। अच्छा।

---

### QUIZ QUESTIONS

---

प्रश्न 1 :- आज बाप-दादा किन आत्माओं को देख हर्षित हो रहे हैं? सेकण्ड में विजयी बनने के लिए सिर्फ एक बात निश्चय और नशे में रहे-वह कौन सी?

प्रश्न 2 :- बाप-दादा को बच्चों के किस वण्डरफुल खेल को देख तरस आता है और हँसी भी आती है? बापदादा अपने साथ क्या ले जाना चाहते हैं?

प्रश्न 3 :- बच्चे जानीजाननहार तो बने हैं, लेकिन अब क्या बनना है?

प्रश्न 4 :- बापदादा ने यू.पी. जोन को किन विशेषताओं के आधार पर विशेष भाग्यशाली कहा?

प्रश्न 5 :- सदा निर्बन्धन और जीवन्मुक्त अवस्था का अनुभव करने के लिए बाबा ने स्मृति की कौन-सी चेकिंग करने को कहा है?

FILL IN THE BLANKS:-

( बलिहार, निर्बन्धन, पाण्डव, ग्रुप, इनवैन्शन, मोह, तीव्रगति, शक्तियाँ, दृढ़, सम्मेलन, अंचली, हाज़रा-हज़ूर, विघ्न, स्वरूप, रूपरेखा )

- 1 हरेक ज़ोन को अभी कोई नई \_\_\_\_\_ निकालनी चाहिए। मेले भी हुए, \_\_\_\_\_ भी हुए; अभी कोई नई \_\_\_\_\_ बनाओ, जिसको देख-सुनकर समझें कि ऐसा कभी न सुना और न देखा।
- 2 साथ-साथ अपने महावीरों का ऐसा विशेष \_\_\_\_\_ बनाओ, जो \_\_\_\_\_ संकल्प द्वारा जाननहार और करनहार का साक्षात् \_\_\_\_\_ बन करके दिखाएँ।

3 इस शिवरात्रि पर \_\_\_\_\_ और \_\_\_\_\_-दोनों विशेष ग्रुप बनावें, जो \_\_\_\_\_-विनाशक ग्रुप हो।

4 साकार में तो फिर भी कई प्रकार के बन्धन थे, अभी तो \_\_\_\_\_ हैं।  
अभी तो और ही \_\_\_\_\_ है-बाप को बुलाया और \_\_\_\_\_।

5 मोह से भी ऊपर-\_\_\_\_\_ होना है; जब बलिहार हो गये, तो \_\_\_\_\_ तो  
उसमें एक \_\_\_\_\_ है।

सही-गलत वाक्यों को चिह्नित करें:- **【✓】** **【✗】**

1 :- ऐसी धारणा हो, कुछ भी सरकमस्टान्सेज आ जाएं, माया के महावीर  
रूप सामने आ जायें, लेकिन भक्ति न छूटे।

2 :- अभी इतनी संख्या वृद्धि को पा रही है, तो आने के गेट भी खुलने  
चाहिए।

3 :- साकार में तो और भी थोड़े समय का साकार साथ था और थोड़ों के  
लिए निराकार का साथ था। अभी तो सभी के साथ हैं।

4 :- अभी साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। सिर्फ आज क्यों, सदा ही साथ चलेंगे।

5 :- बाप-दादा यहाँ का यहाँ जमा भी करते हैं और भविष्य के लिए भी जमा होता है।

---

### QUIZ ANSWERS

---

प्रश्न 1 :- आज बाप-दादा किन आत्माओं को देख हर्षित हो रहे हैं? सेकण्ड में विजयी बनने के लिए सिर्फ एक बात निश्चय और नशे में रहे-वह कौन सी?

उत्तर 1 :- आज बाप-दादा विश्व की सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को देख हर्षित हो रहे हैं। सर्व आत्माओं में से बहुत थोड़ी-सी आत्माओं का ऐसा श्रेष्ठ भाग्य है। जैसे बच्चे भाग्य विधाता बाप को देख हर्षित होते हैं, वैसे बाप भी भाग्यवान बच्चों को पाकर बच्चों से भी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि:

① इतने समय से और इतने सब बच्चे बिछड़े हुए फिर से मिल जाएँ, तो क्यों नहीं खुशी होगी।

② हर बच्चे की विशेषता या हर सितारे की चमक, हर रूह की रंगत, रूहानियत की ईश्वरीय झलक-जितना बाप जानते हैं, उतना बच्चे स्वयं भी कब भूल जाते हैं।

③ स्थापना के कार्य में आदि से जो आत्मार्ये सहयोगी हैं, उन्हीं को विशेष सहयोग ड्रामा अनुसार किसी न किसी रूप से प्राप्त जरूर होता है। गारन्टी है।

सर्व विघ्नों से, सर्व प्रकार की परिस्थितियों से या तमोगुणी प्रकृति की आपदाओं से सेकण्ड में विजयी बनने के लिए सिर्फ एक बात निश्चय और नशे में रहे-वाह रे मैं! इस मरजीवा जीवन के जन्म के संस्कार-वाह रे मैं-ही हैं। बाबा ने समझाया कि बहुत पुरानी बात है, जो बार-बार जानते भी हो, संकल्प तक स्मृति में रहते हो, लेकिन संस्कार रूप में नहीं रहते हो। सोचते भी हो, समझते भी हो, सुनते भी हो, फिर भी कभी-कभी भूल जाते हो। यह सुनते खुश भी होते हो, फिर भी भूल जाते हो।

प्रश्न 2 :- बाप-दादा को बच्चों के किस वण्डरफुल खेल को देख तरस आता है और हँसी भी आती है? बापदादा अपने साथ क्या ले जाना चाहते हैं?

उत्तर 2 :- बाप-दादा को तरस आता है और हँसी भी आती है कि बच्चे अपने जन्म के निजी संस्कार, जन्म की पहली स्मृति, जन्म का पहला

बोल-मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ, इसको भी भूल जाते हैं! ब्राह्मण अर्थात् स्मृति स्वरूप। ब्राह्मण अर्थात् समर्थी स्वरूप। परन्तु भूलने का कारण कोई नाज़-नखरे करते, कोई आंख मिचौनी करते; कभी वाह कहते, कभी हाय करते! वायदा क्या किया, उसको भी बच्चे जानते हैं। बाबा ने पूछा कि:

① आधा कल्प भूलने के खेल में खेला-अब भी यही भूलने का खेल अच्छा लगता है?

② स्वरूप को भूलना, इसको क्या कहेंगे?

③ इतनी महान आत्माएँ, और करती क्या हैं ?

④ जब बाप के बच्चे बने-मरजीवा बने, तो पहली प्रतिज्ञा कौन-सी की ?

⑤ फेंकी हुई चीज़, गन्दी चीज़, बेकार चीज़, जली सड़ी हुई वस्तु फिर से उठाकर यूज़ क्यों करते हो?

⑥ बेकार समझ, बिगड़ी हुई वस्तु समझ प्रतिज्ञा की और त्याग किया, वचन लिया कि फिर से यह विष सेवन नहीं करेंगे; फिर क्या करते हो?

⑦ बाप ने वायदा कराया और आपने स्वीकार भी किया; स्वीकार करने के बाद फिर क्या करते हो?

बाबा ने कहा कि बाप तो हर बच्चों के बुलाने पर आ जाते हैं। बच्चे जो आज्ञा करें, वह मानते हैं, लेकिन इस बार कुछ साथ में ले भी जाना है; साथ में कुछ ले ही जायेंगे। बच्चे तो साथ हैं ही। लेकिन इस बार हर बच्चे के दृढ़ संकल्प की अन्तिम आहुति ले जायेंगे। यज्ञ की आहुति की खुशबू दूर तक फैलती है, तो बाप-दादा भी साकार वतन से सुक्ष्मवतन तक यज्ञ की इस विशेष खुशबू की खुशखबरी ले जायें—ऐसा प्रसाद तैयार करो। बाबा ने कहा कि अब देखेंगे, क्या प्रसाद तैयार कर देते हैं; पाण्डव तैयार करते हैं, या शक्तियाँ तैयार करती हैं, या दोनों ही तैयार करते हैं।

① यज्ञ का प्रसाद अन्तिम आहुति होती है। यही आहुति जाने का गेट भी खोलेगी। यज्ञ की रचना साकार सृष्टि में साकार द्वारा हुई; ब्रह्मा ने अपना पार्ट बजाकर ब्राह्मणों को यज्ञ की जिम्मेवारी तो दी, यज्ञ की विशेष प्रसादी बाप-दादा लेंगे।

② कोई भी मिलने आते हैं, तो उनको प्रसाद देते हो ना। बाप-दादा भी प्रसादी ले जायेंगे। यह प्रसाद देना, अर्थात् विश्व परिवर्तन होना है।

③ इस शिवरात्रि पर सेवा के साधन—जिससे अन्य अनेक आत्माओं को परिचय मिले—वह तो करेंगे ही, लेकिन साथ-साथ ऐसा संकल्प करो कि परिचय के साथ बाप की झलक देखने या अनुभव करने का प्रसाद भी लेवें।

④ जहाँ प्रसाद मिलता है, वहाँ सभी को आकर्षण होती है। न चाहते हुए भी स्वतः ही लोग आ जाते हैं, प्रसादी की आकर्षण से। तो ऐसा लक्ष्य रखो, वायुमण्डल बनाओ; अपनी समर्थी के आधार पर असमर्थ आत्माओं को विशेष रहम के संकल्प की आकर्षण से प्राप्ति या अनुभूति का प्रसाद बाँटो।

**प्रश्न 3 :- बच्चे जानीजाननहार तो बने हैं, लेकिन अब क्या बनना है?**

उत्तर 3 :- जानीजाननहार, करनकरावनहार मीठे-मीठे बापदादा ने समझाया कि बच्चे जानीजाननहार तो बने हैं, लेकिन बनना है करनहार; इसलिए करनहार बनने का विशेष कार्यक्रम करके दिखाओ। ऐसी सम्पूर्ण आहुति का संकल्प करो, तब परिवर्तन समारोह होगा। इस समारोह की डेट संगठित रूप में निश्चित करो। करनहार बनने के लिए:

① संकल्प द्वारा त्याग की हुई बेकार वस्तुओं को संकल्प में भी स्वीकार नहीं करो। मैं-मैं का त्याग करना-इसको कहा जाता है ईद मनाना।

② अपने स्वमान, श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ जीवन के समर्थी स्वरूप बनो।

③ श्रेष्ठ स्वरूप, श्रेष्ठ पार्टधारी बन श्रेष्ठता का खेल करो।



बाबा ने कहा कि सोचो और स्वयं से पूछो कि:

- 1 मैं कौन हूँ और क्या कर रहा हूँ!
- 2 वचन क्या किया और कर्म क्या कर रहे हैं!
- 3 वायदा क्या किया ओर निभा क्या रहे हैं!
- 4 कहना क्या और किया क्या! ऐसे वण्डरफुल खेल अब बन्द करो।

प्रश्न 4 :- बापदादा ने यू.पी. जोन को किन विशेषताओं के आधार पर विशेष भाग्यशाली कहा?

उत्तर 4 :- बापदादा ने यू.पी. जोन को विशेष भाग्यशाली कहा, क्योंकि यू.पी. की विशेषता है:

- 1 "भावना वाली धरनी" है। भक्ति की भावना ज्यादा है। ऐसी भक्त धरनी को भक्ति का फल देने के निमित्त बने हुए हैं।
- 2 "यादगार धरनी" है। सभी ज़ोन में से यादगार भी ज्यादा यू.पी. में हैं, तो यू.पी. की यादगार धरनी को फिर से विशेष याद दिलाओ।
- 3 यू.पी. का विस्तार बहुत है। विस्तार से अपने ज्ञान का बीज डाल बाप की कल्प पहले वाली फुलवाड़ी और अधिक तैयार करो।

④ वैसे भी यू.पी. की धरनी फलीभूत धरनी है, इसलिए और भी ज्यादा फुलवाड़ी बढ़ा सकते हो।

⑤ नदी का महत्त्व भी यू.पी.में है - नहान का महत्त्व भी यू.पी. में है। जैसे स्थूल नहान का महत्त्व है वैसे चारों ओर ज्ञान-नहान का महत्त्व बढ़ाओ। हर स्थान से ज्ञान गंगा बहती जाए।

⑥ यू.पी. का महत्त्व है-महान है ना। नियमपूर्वक ज्ञान के तीर्थस्थान की आदि भी यू.पी. से हुई है; निमन्त्रण अर्थ कानपुर और लखनऊ की आत्मायें निमित्त बनी हुई थीं। महानता तो बहुत है, अब जितनी महानता गाई गई है, उसी प्रमाण महान कार्य करके दिखाओ; ऐसा विशेष कार्य करो, जो अभी तक कोई ज़ोन ने नहीं किया हो।

प्रश्न 5 :- सदा निर्बन्धन और जीवन्मुक्त अवस्था का अनुभव करने के लिए बाबा ने स्मृति की कौन-सी चेकिंग करने को कहा है?

उत्तर 5 :-सदा निर्बन्धन और जीवन्मुक्त अवस्था का अनुभव करने के लिए बाबा ने कहा कि सतयुग की जीवन्मुक्ति का वर्सा तो प्राप्त होगा ही, लेकिन अभी के जीवनबन्ध से जीवन्मुक्त स्थिति का अनुभव सतयुग से भी ज्यादा है। बाबा ने समझाया कि बन्धन ही पिंजरा है; तो सभी ने अपने बन्धनों का पिंजरा तोड़ दिया है! अभी पिंजरे की मैना नहीं, स्वर्ग

की मैना हो गये। शुरु-शुरु का गीत है ना-पिंजरे की मैना अभी तो स्वर्ग की परियाँ हो गईं, सभी स्वर्ग में उड़ने वाली हो। पिंजरे की मैना से फरिश्ते बन गईं। बन्धन सब समाप्त हो गये और जीवनमुक्त हो गए। निर्बन्धन आत्मा ही ऊँची स्थिति का अनुभव कर सकेगी। बन्धन वाला तो नीचे ही बंधा रहेगा, निर्बन्धन ऊपर उड़ेगा। कोई भी (हृद का) मेरापन है, तो पिंजरे में बन्द हो। अभी कहाँ भी ज़रा भी बन्धन न हो; मन का भी बन्धन नहीं। क्या करूँ, कैसे करूँ, चाहता हूँ, होता नहीं चाहता हूँ, कर नहीं पाता, तो कमज़ोर हुआ ना। इस मन के बन्धन से भी मुक्त, उसको कहा जाता है निर्बन्धन। तो अभी भी चेकिंग करना है कि:

① जीवनमुक्त हो या जीवन बन्ध हो? अपने ज्ञान और योग की शक्ति से जीवनमुक्त अवस्था का अनुभव करते हो अथवा अभी भी बन्धन हैं?

② सदा अपने भाग्य का सिमरण करते खुशी में रहते हो? वाह मेरा भाग्य! यह गीत सदा मन में बजता रहता है?

जीवनमुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए बाबा ने निम्नलिखित युक्तियाँ बतलायी हैं:

① वाह बाप, वाह ड्रामा और वाह मेरा पार्ट-सदा इसी स्मृति में हर कार्य करते ऐसे अनुभव होता है, जैसे कर्म करते हुए भी कर्म के बन्धन से मुक्त, सदा जीवन मुक्त है।

② खेल समझने से जीवनमुक्त स्थिति का अनुभव करेंगे। कुछ भी हो जाये, लेकिन जीवनमुक्त होने के कारण ऐसे अनुभव होता है, जैसे एक खेल कर रहे हैं; परीक्षा नहीं, लेकिन खेल है। तन का रोग हो जाए, माया के अनेक प्रकार के वार भी हों, लेकिन खेल अनुभव हो। खेल में दुःख नहीं होता; खेल किया ही जाता है मनोरंजन के लिए, दुःख के लिए नहीं। शरीर का, सम्बन्ध का कोई भी बन्धन न हो। यह तो खेल-खेल में फर्ज अदाई निभा रहे हैं।

③ फर्ज अदाई का भी खेल कर रहे हैं। फर्ज अदाई भी निमित्तमात्र निभानी है, लगाव से नहीं। फिर कहेंगे निर्बन्धन। ट्रस्टी बनकर चलते हो, तो निर्बन्धन हो।

④ जब बाप के बच्चे बने, तो बच्चा अर्थात् स्वतन्त्र। बच्चा अर्थात् निर्बन्धन। चाहे कुमार हो, चाहे वानप्रस्थी हो, लेकिन सब बच्चे हैं। सिर्फ एक कार्य बाप ने दिया है-“याद करो और सेवा में रहो”।

⑤ अगर अपने को पास्ट जीवन वाले समझेंगे, तो बन्धन है, मरजीवा हो गये, तो निर्बन्धन।

## FILL IN THE BLANKS:-

( बलिहार, निर्बन्धन, पाण्डव, ग्रुप, इनवैन्शन, मोह, तीव्रगति, शक्तियाँ, दृढ़, सम्मेलन, अंचली, हाज़रा-हज़ूर, विघ्न, स्वरूप, रूपरेखा )

1 हरेक ज़ोन को अभी कोई नई \_\_\_\_\_ निकालनी चाहिए। मेले भी हुए, \_\_\_\_\_ भी हुए; अभी कोई नई \_\_\_\_\_ बनाओ, जिसको देख-सुनकर समझें कि ऐसा कभी न सुना और न देखा।

इनवैन्शन / सम्मेलन / रूपरेखा

2 साथ-साथ अपने महावीरों का ऐसा विशेष \_\_\_\_\_ बनाओ, जो \_\_\_\_\_ संकल्प द्वारा जाननहार और करनहार का साक्षात् \_\_\_\_\_ बन करके दिखाएँ।

ग्रुप / दृढ़ / स्वरूप

3 इस शिवरात्रि पर \_\_\_\_\_ और \_\_\_\_\_-दोनों विशेष ग्रुप बनावें, जो \_\_\_\_\_-विनाशक ग्रुप हो।

पाण्डव / शक्तियाँ / विघ्न

4 साकार में तो फिर भी कई प्रकार के बन्धन थे, अभी तो \_\_\_\_\_ हैं। अभी तो और ही \_\_\_\_\_ है-बाप को बुलाया और \_\_\_\_\_।

निर्बन्धन / तीव्रगति / हाज़रा-हज़ूर

5 मोह से भी ऊपर-\_\_\_\_\_ होना है; जब बलिहार हो गये, तो \_\_\_\_\_ तो उसमें एक \_\_\_\_\_ है।

बलिहार / मोह / अंचली

सही-गलत वाक्यों को चिह्नित करें:- [✓] [✗]

1 :- ऐसी धारणा हो, कुछ भी सरकमस्टान्सेज आ जाएं, माया के महावीर रूप सामने आ जायें, लेकिन भक्ति न छूटे। [✗]

ऐसी धारणा हो, कुछ भी सरकमस्टान्सेज आ जाएं, माया के महावीर रूप सामने आ जायें, लेकिन धारणा न छूटे।

2 :- अभी इतनी संख्या वृद्धि को पा रही है, तो आने के गेट भी खुलने चाहिए। [✗]

अभी इतनी संख्या वृद्धि को पा रही है, तो जाने के गेट भी खुलने चाहिए।

3 :- साकार में तो और भी थोड़े समय का साकार साथ था और थोड़ों के लिए निराकार का साथ था। अभी तो सभी के साथ हैं। 【✖】

साकार में तो और भी थोड़े समय का साकार साथ था और थोड़ों के लिए साकार का साथ था। अभी तो सभी के साथ हैं।

4 :- अभी साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। सिर्फ आज क्यों, सदा ही साथ चलेंगे। 【✓】

5 :- बाप-दादा यहाँ का यहाँ जमा भी करते हैं और भविष्य के लिए भी जमा होता है। 【✖】

बाप-दादा यहाँ का यहाँ रिटर्न भी करते हैं और भविष्य के लिए भी जमा होता है।